

E-COMMERCE

Piyush Goyal, commerce & industry minister

The platform cannot have a preferred supplier, it cannot determine the pricing, the platform cannot have control on the inventory, a platform cannot push buyers to sell and in that context, when a certain e-commerce company makes a loss of, let's say, over ₹6,000 crore on a turnover of ₹5,000 crore... It certainly doesn't look and feel and smell right

# Quick

### **Players invited** for electric lane of expressway

**UNION MINISTER Nitin** Gadkari on Thursday urged industry players to join hands with the government for the proposed electric lane on ₹1.03 lakh crore Delhi-Mumbai Expressway while promising to provide policy support to serious players. He said while a stretch of the Delhi-Mumbai Expressway is planned as electric lane, the Delhi-Jaipur part of the 1,320 km expressway will be completed before

### **₹1L-crore tunnel** works in next 5 yrs

**UNION MINISTER Nitin** Gadkari has said that works worth over ₹1 lakh crore will be undertaken for tunnels at strategic locations in the next five years to ensure allweather connectivity. Also, the minister said, competent players, whether small or big, need to be given opportunity and there is a need to relax parameters including technical and financial qualifications for bidders. "There is a need for tunnels in the country, especially at the strategic locations, to provide allweather connectivity. In the next five years, we will undertake work worth more than ₹1 lakh crore for tunnels," the road transport and highways

### 'PSBs hit by fraud cases of ₹1.17 lakh cr'

minister said.

ATOTAL of 8,926 cases of fraud involving ₹1.17 lakh crore hit 18 public sector banks during the first three quarters (April-December) of the current fiscal, a reply to an RTI query has revealed. The country's largest lender State Bank of India (SBI) was the biggest hit by frauds, RTI activist Chandrasekhar Gaur told PTI on Thursday quoting an official of the RBI who furnished replies to the RTI application.

## STABLE OUTLOOK

# S&P affirms India's rating at'BBB-'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 13

**GLOBAL RATINGS AGENCY** Standard and Poor's on Thursday affirmed India's sovereign rating at 'BBB-'with stable outlook, saying the country's GDP growth is likely to gradually recover towards longer-term trend rates over the next two to three years.

A'BBB' rating refers to adequate capacity of the rated entity to meet its financial commitments.

"Despite a notable deceleration in India's economy in recent quarters, we believe its structural growth outperformance remains intact. Real GDP growth is therefore likely to gradually recover toward longer-term trend rates over the next two to three years," S&P said in a statement. It expects the economic

growth rate to improve to 6% during 2020-21, 7% in the next fiscal and 7.4% there-

"We expect India's economy to continue to outperform peers at a similar level of income, despite a recent slowdown in real GDP growth. "Supportive monetary, fis-

cal, and cyclical factors should support economic recovery, with real GDP growth averaging 7.1% in fiscals 2020-2024," it said. The agency, however,

pointed out that India's fiscal position remains precarious, with elevated fiscal deficits and net government indebted-

deficits have Fiscal exceeded the government's



plan, S&P said, adding it expects limited consolidation over the next few years.

"S&P Global Ratings affirmed its 'BBB-'long-term and 'A-3' short-term unsolicited foreign and local currency sovereign credit ratings on India. The outlook on the long-term rating is stable," it said in a statement. As per the National Statisti-

cal Office (NSO), India's GDP growth is estimated to slow down to 5% during 2019-20. The government expects growth to rebound to over 6% in the next financial year. Providing rationale for its

rating action, S&P said the ratings on India reflect the country's above-average real GDP growth, sound external profile, and evolving monetary set-

As per the statement, the stable outlook reflects S&P's expectation that India's growth will be strong, the country will maintain its sound net external position, and its fiscal deficits will remain elevated but broadly in line with its forecasts over the next two years.

Further, "upward pressure" on the ratings could build if the government significantly curtails its fiscal deficits, resulting in lower net indebtedness at the general government level.

## Inflation spike transitory, expect it to drop to 4-4.5% by July, says CEA

**FE BUREAU** New Delhi, February 13

A SURGE IN onion prices contributed around 70 basis points to retail inflation that scaled a 68-month peak of 7.59% in January, chief economic adviser Krishnamurthy Subramanian said on Thursday, stressing that the latest spike in inflation is "transitory" and is substantially driven by volatile vegetable prices and an unfavourable base.

He also pointed at a healthy co-relation of 0.53 between the Purchasing Managers' Index (PMI) and the Index of Industrial Production (IIP), based on data for over seven years, and indicated that the surge in the PMI index in January would augur well for factory output growth. The PMI

near eight-year peak in January and that of services jumped to a seven-year high. The IIP, however, shrank 0.3% y-o-y in December 2019, having reversed a modest rise in the previous month and recording its fourth contraction in five months. Subramanian expected

for manufacturing scaled a

retail inflation to come down to a more realistic level of 4-4.5% by July, as the effect of an inconducive base wanes. Fresh arrivals of crops, especially onion, in March and higher vegetable output will have a soothing effect on inflation in 13.4% a year before. Similarly, the coming months. Core inflation, meanwhile, stood at 4.2% in January, against 5.4% a year before, reflecting a certain degree of demand compression in the economy, Sub-

**CEA Krishnamurthy** Subramanian said the latest spike in inflation is substantially driven by volatile vegetable prices and an unfavourable base

ramanian said. This means the underlying inflationary pressure in the economy isn't really a matter of grave concern yet.

Explaining the role of base impact, Subramanian said CPI inflation in vegetables spiked to 50.2% in January from inflation in pulses rose from -5.5% to 16.7%, food and beverages from -1.3% to 11.8% and overall food inflation from -2.2% to 13.6%. The headline inflation nudged up to 7.6% in January from just 2% a year This is probably why the

monetary policy committee, in its review meeting earlier this month, decided to keep the repo rate unchanged but still delivered implicit easing, to address concerns about a protracted growth slowdown. The RBI said it would lend ₹1 lakh crore of one-year and threeyear money to banks at the reporate 5.15% so they would have durable funds at a softer rate. The central bank also gave them a six-month CRR-break on new home, auto and MSME loans, again bringing down their cost of funds. Economic growth is expected to hit a seven-year low of 5.7% in FY20 and the Economic Survey expects growth to pick up to 6-6.5% in the next fiscal.

he said here at the Times Now

Summit. It is the government's

job and duty to protect the inter-

ests of every small stakeholder

in the sector, he added. The min-

ister said that the government

allowed foreign direct invest-

ment (FDI) in e-commerce for

marketplace model, in which a

firm is supposed to work as an

agnostic platform by providing

buyers and sellers, an opportu-

nity to transact on that plat-

form. "The platform cannot

have a preferred supplier, it can-

not determine the pricing, the

platform cannot have control on

the inventory, a platform cannot

Kerala student who tested positive for coronavirus discharged

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 13

**ONE OF THE** three medical students who had tested positive for novel coronavirus infection and were treated at a hospital in Kerala has been discharged after recovery, Union health minister Harsh Vardhan said on Thursday.

About the other two, he said subsequent tests indicated significant reduction in "viral load".

"We are still waiting for confirmatory results before discharging them. They are stable and recovering. They will be discharged soon," Vardhan

A high-level group of ministers, constituted on the directions of the prime minister, held its second meeting to review the current status and actions for prevention and management of the novel coronavirus, named COVID-19, on Thursday. Addressing a press confer-

ence, Vardhan said a total of 2,51,447 persons travelling in 2,315 flights have been screened so far.

Besides, 15,991 people across the country have been kept on community surveillance. Of them, 497 have been identified as symptomatic cases and isolated while 41 have been hospitalised, Vard-

The minister said 645 Indians and seven Maldivians evacuated from China's Wuhan city kept at the quarantine facilities set up by the Army and Indo Tibetan Border Police (ITBP) in and around Delhi, have tested negative for coronavirus. They will be kept under

observation and their samples will be re-tested on Day 14 of the quarantine period before being discharged, Vardhan said. Vardhan further said India has extended support to the Maldives in testing samples and to Bhutan in managing the disease.

## Doesn't look, feel, smell right when etailer makes ₹6k-cr loss on ₹5k-cr turnover: Goyal

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, February 13

**COMMERCE AND INDUSTRY** minister Piyush Goyal on Thursday asked e-commerce players

to strictly adhere to FDI norms, saying it "certainly does not look and feel and smell right" when a company makes a loss of ₹6,000 crore on a turnover of ₹5,000 Goyal, who had earlier

remarked that e-commerce giant Amazon was not doing any favour to India by announcing \$1 billion investment in the country as they are financing their losses, also reiterated that neither the Competition Commission of India (CCI) nor his ministry would have to probe on fair trade practices if e-commerce players "can stick within the letter and spirit of the law".

He said that India would welcome e-commerce companies to work within the framework and the laws of the land. The minister was replying to

a question about his earlier statement on Amazon and whether the company is breaking domestic laws of the sector. "I had before me the CCI's

preliminary findings. Our own office is also making queries on the various practices and I do hope and believe that if everybody can stick within the letter and spirit of the law, we won't have to go down the path of finding whether anybody is breaking the law or not but whoever makes losses will have to bring in FDI to pay for those losses,"he said. He appealed to all stakeholders in the e-commerce industry to work within the letter and the spirit of the law and



said, "I am sure it would look good for everybody." "Promises of a certain num-

ber of people benefitting from ecommerce are very attractive, but it cannot be at the cost of a '10X' number of people suffering the consequences of practices which are not allowed and certainly a trillion dollar company, competing with small retailers whose total capital may be a lakh of two lakhs of rupees is avery, very unfair competition,"

push buyers to sell and in that context, when a certain e-commerce company makes a loss of lets say over ₹6,000 crore on a turnover of ₹5,000 crore. Right. It certainly doesn't look and feel and smell right. Right?" businessmen from GCCI would participate in the event including all office-bearers of the apex trade body in the state. FICCI Gujarat chairman

# Corp honchos, B-Town stars to be in attendance at Ahmedabad Trump event

**FE BUREAU** 

Ahmedabad, February 13

THE NARENDRA MODI government is pulling all stops to ensure its puts the country's best on display during the forthcoming high-profile visit of US President Donald Trump and First Lady Melania Trump. In a star-spangled event at the newly-constructed Sardar Vallabhbhai Patel Stadium at Motera in Ahmedabad on February 24, not only will the Trumps be serenaded by the stars of Bollywood but will also rub shoulders with the stars of India's corporate world, who are expected to attend the high profile 'Kem Chho Trump' event at the Sardar Vallabhbhai Patel Stadium at Motera in Ahmedabad.



Ahmedabad on Thursday

Apart from the US president, first lady and Prime Minister Narendra Modi, the inauguration of the world's biggest cricket stadium will also be attended by more than 1.2 lakh other people. Sources in the state government said that

corporate honchos including Mukesh Ambani, Ratan Tata, Kumar Mangalam Birla, Gautam Adani, Pankaj Patel, Sudhir Mehta, AM Naik and others will be present for the event.

"We have roped in industry bodies including CII, FICCI,

### **Excited for India trip: Melania**

AN "EXCITED" US First Lady Melania Trump has said that she and President Donald Trump were looking forward to their first visit to India, which would be an occasion to celebrate the two countries.

President Trump will pay a state visit to India on February 24 and 25 at the

ASSOCHAM, Gujarat Chamber of Commerce and Industry (GCCI) and regional chambers to invite industrialists and businessmen. They will invitation of Prime Minister Narendra Modi. Apart from New Delhi, the president and the first lady will visit Ahmedabad, capital of Gujarat, Modi's home state. In a tweet, Melania

close ties between the the Trump said her maiden trip to India as the first lady is an occasion to celebrate the close ties between the two countries.

> **Industries Commissionerate** are constantly in contact of these associations," said Gujarat's industries commissioner Rahul Gupta.

GCCI president Durgesh Buch said that a group of nearly 1,000 industrialists and

Date & Time of submission of Tender.

Advt. No. J.S.V. 805/2019-20

Deepak Mehta said that 400 members have already confirmed participation and more are expected. Invitations were sent to the national leadership of FICCI also, said Mehta. CII Gujarat chairman Raju Shah said he would ensure maximum participation from CII.

Sources said that a separate identified block with a capacity of over 6,000 people is being planned at the Motera Stadium for the captains of trade and industries. As per the layout, the block is planned near to the stage from where PM Modi and the US president would address the mammoth gathering.

### 'Man on flight from Bangkok quarantined'

A PASSENGER ON board a SpiceJet Bangkok-Delhi flight was quarantined on Thursday after he was suspected of having contracted the novel coronavirus, the airline said in a statement.

The passenger was quarantined by the Airport Health Organisation after the plane landed at Delhi airport, it said.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

**EXECUTIVE ENGINEER (SDW) VII** 

# S. CHAND

## S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi110044, India Email: investors@schandgroup.com; Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800 Fax: +91 11 49731801 CIN: L22219DL1970PLC005400

Extracts of the Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2019

S.	Particulars	Standalone				Consolidated					
No.		Quarter ended		Nine months ended		Year ended	Quarterly		Nine months ended		Year ended
		Dec 31, 19	Dec 31, 18	The second secon	Dec 31, 18	Mar 31, 19	Dec 31, 19	Dec 31, 18	Dec 31, 19	Dec 31, 18	Mar 31, 19
		Unaudited	Unaudited		Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from operations	61.86	65.25	441.54	471.99	2,176.60	102.88	78.34	1,015.34	802.83	5,336.43
2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	(314.44)	(273.64)	(740.57)	(765.65)	(276.32)	(1,015.62)	(966.82)	(2,275.54)	(2,443.33)	(719.13)
3	Profit/(loss) before tax	(314.44)	(499.21)	(740.57)	(991.22)	(501.89)	(1,015.62)	(1,193.09)	(2,275.54)	(2,727.73)	(952.52)
4	Profit/(loss) for the period/year (after tax)	(221.47)	(319.53)	(562.28)	(639.72)	(310.24)	(748.43)	(814.84)	(1,729.48)	(1,884.21)	(669.20)
5	Total comprehensive income for the period/year (comprising profit/(loss) and other comprehensive income for the period/year)	(220.67)	(321.63)	(562.95)	(639.92)	(310.93)	(746.81)	(821.10)	(1,728.63)	(1,881.40)	(644.58)
6	Equity Share capital	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88
7.	Reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) of the previous year	N.A	N.A	N.A	N.A	8,053.30	NA	NA	NA	NA	9,729.02
8	Earnings/(loss) per share (in ₹)										
	- Basic	(6.33)	(9.14)	(16.08)	(18.29)	(8.87)	(21.40)	(23.26)	(49.45)	(53.45)	(19.13)
	- Diluted	(6.33)	(9.14)	(16.08)	(18.29)	(8.87)	(21.40)	(23.26)	(49.45)	(53.45)	(19.13)

The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the company's website www.schandgroup.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Limited

The unaudited standalone and consolidated financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2019 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on February 12, 2020 and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2020.

For and on behalf of the Board of Directors S Chand And Company Limited

> Himanshu Gupta **Managing Director** DIN: 00054015

### भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. Regd. Office : CONCOR Bhawan, C-3, Mathura Road, Opp. Apollo Hos NOTICE INVITING E-TENDER

CONCOR invites E-Tender in Two packets system of tendering for the following work:-CON/EP/MMLP/Kadakola/Civil & Electrical works/R-1/2020 Tender No. Earthwork (Cutting/Filling), Construction of CC Block Name of Work Pavement, Approach Road, Culvert, P-Way Track Work, Boundary Wall, Pre-Engineered Warehouses, Admin. Bldg. Canteen, and other Allied works for development of MMLP at KADAKOLA, Mysore, Karnataka. ₹.6506.54 Lakhs Estimated Cost 24 (Twenty Four) Months Completion Period ₹. 34,03,270/- (through e-payment) Earnest Money Deposit Cost of Tender Document ₹. 1,000/- (inclusive all taxes & duties) through (Non-refundable) Tender Processing Fee ₹. 5,310/- (inclusive all taxes & duties through e-payment.) (Non-refundable) Date of sale of Tender 14.02.2020 (11:00hrs) to 06.03.2020 (up to 17:00 hrs)

Date & Time of Opening of Tender 11.03.2020 at 11:30 hrs. For Financial Eligibility Criteria, experience with respect to similar nature of work, etc. please refer to detailed tender notice available on website www.concorindia.com, but the complete tender document can be downloaded from website www.tenderwizard.com /CCIL only". Further, Corrigendum/ Addendum to this Tender, if any, will be published on website www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/CCIL and Central Procurement Portal (CPP) only. Newspaper press advertisement shall not be issued Group General Manager (EC) Phone No.: 011-41222500

07.03.2020 upto 17:00 hrs.

**DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT DELHI** OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (SDW) VII **NSTP CORONATION PILLAR DELHI-110009** E-mail ID:- eesdw7.dib@nic.in. Phone No 011-27602302 PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 21 (2019-20) Earnest Date of release of tender Name of work Estimated Last date /time for Money in E-Procurement Cost solution 13.02.2020 24.03.2018 Item Rate 13140000/ Tender ID. No. is upto 3.00 PM

No receipt of tender Through e-Procurement Solution Design, Construction, Rehabilitation, Process Up-Gradation, Installation, testing, Commissioning of 45.46 MLD (10 MGD) STP Narela with 10 years 2020\_DJB\_187927\_1 Operation & Comprehensive Maintenance following 2 years DLP. NIT along with all terms & conditions is available on WebSite https://govtprocurement.delhi.gov.in ISSUED BY P.R.O. (WATER)

financialexp.ep.m.in

Date: February 13, 2020

Place: New Delhi

send out invites to their members and also confirm their participation. Officials of

भाग-1

# लॉकहीड मार्टिन ने की मदद की पेशकश

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 13 फरवरी।

सीबीआइ

जांच के लिए

याचिका

नई

दिल्ली, 13

फरवरी

(भाषा)।

में पिछले

सप्ताह एक सांस्कृतिक उत्सव के दौरान

छात्राओं से

का अनुरोध

करते हुए गुरुवार को

दिल्ली हाई

काट में एक

याचिका

दायर की

गई। इससे

पहले दिन में

सुप्रीम कोर्ट

ने याचिका

पर विचार

करने से

दिया था

उनके

इनकार कर

और याची व

वकील को

हाई कोर्ट

जाने के

निर्देश दिए

थे। सुप्रीम

कोर्ट के

फैसले के

कुछ घंटे

बाद वकील

ने हाई कोर्ट

में याचिका

दाखिल की।

एमएल शर्मा

ने याचिका

में अनुरोध

कॉलेज

सभी

परिसर के

सीसीटीवी

फुटेज और

रिकार्डिंग को सुरक्षित रखा

जाए। इसके

साथ ही

उन्होंने इस

साजिश के

जिम्मेदार

लोगों के

गिरफ्तार

करने की भी

मांग की है।

पीछे

वीडियो

किया है कि

वकील

कथित छेड़छाड़ मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआइ से जांच कराने

स्थानीय

गार्गी कॉलेज

अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को स्वदेश निर्मित तेजस युद्धक विमान की क्षमता बढाने तथा अगली पीढी का उन्नत बहद्देश्यीय युद्धक विमान (एएमसीए) विकसित करने के कार्यक्रम में मदद की पेशकश की है। अमेरिकी विमान कंपनी ने यह पेशकश 24-25 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली भारत यात्रा से पहले की है। ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग के और मजबूत होने

महत्त्वाकांक्षी विमान के

विकास में भारत की

सहायता करने के लिए

तैयार है। कंपनी के

वाइस प्रेसिडेंट (स्ट्रेटजी

डेवलपमेंट) लाल ने

कहा कि हम तेजस के

साथ-साथ पांचवीं पीढी

अधिकारी विवेक लाल ने कहा कि जरूरत को पूरा करने में मदद के लिए कंपनी तेजस युद्धक जेट के साथ ही तैयार हैं। अगली पीढी

बिजनेस

एएमसीए के विकास में भारत सरकार लॉकहीड मार्टिन के एक वरिष्ठ या भारतीय वायु सेना की किसी भी

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सचित किया जाता है कि कम्पनी मैग्नेटा फाइनांस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड ने श्री त्रिबिक्रम नायक (DIN:02963020) को 15.11.2019 से कम्पनी का निदेशक नियक्त किया था तथा उस नियुक्ति पर भा.रि.बैं. से 10.2.2020 को स्वीकृति प्राप्त की गई।

यदि इस नियुक्ति पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर वैध कारणों के साथ नीचे वर्णित ईमेल अथवा पते पर कम्पनी को लिखें।

31 दिसंबर, 2019 | 31 दिसंबर, 2019

कम्पनी सचिव मैग्नेटा फाइनांस सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड

### हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. (हडको), (भारत सरकार का उपक्रम) आई एस ओ 9001:2015 प्रमाणित कम्पनी हडको भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर — 302005 अचल सम्पत्तियों के लिए कब्जे का नोटिस

यतः "वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिमूति—हित का प्रवर्तन अधिनयम, 2002" की धारा 13( के अधीन हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेषन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने मांग नोटिस दिनांक 09.09.201 को जारी करते हुए ऋणी/जमानतदार - (1) श्री मदन लाल खटीक पुत्र श्री भैंक लाल खटीक, पता (i)- ग्राम पो पराना, तहसील टोंक, जिला टोंक, पता (ii)— प्लॉट /ब्लॉक नं. 10 / 85, दूसरी मंजिल, पुलिस अकादमी, शास्त्री नग जयपुर, पता (iii)— प्लॉट नं. 16, बालाजी विहार, अनिता कॉलोनी, रामपुरा रोड, साँगानेर रेलवे स्टेशन, जयपुर (2) मदन लाल खटीक (बेल्ट नं. 7290) पुत्र श्री भैंक लाल खटीक, पता— रिजर्व पुलिस लाईन्स, चाँदपोल, जयपुर (3) भैंवर लाल (कॉस्टेबल बेल्ट नं. 7223) पुत्र श्री रामस्वरूप खटीक, पता (i)— रिजर्व पुलिस लाईन्स, जयपुर शहर, चाँदपो जयपुर, पता (ii)— ग्राम पोस्ट सोनवा, तहसील एवं जिला टॉक को रूपये 17,29,285/—(असरे रूपये सन्ह ला उनतीस हजार, दो सौ पिच्यासी मात्र) दिनांक 30.09.2019 (09.09.2019 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इसके पश्चात याज व खर्च अतिरिक्त का भुगतान, नोटिस की दिनांक से 60 दिनों के भीतर, करने की मांग की थी। ऋणी इ सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने में असफल होने पर, ऋणी/आमजन को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एक्ट की धारा 13 (4) व नियम 8 (1) प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी ने आज दिर 11.02.2020 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है एवं आमजन को सावधान किया जाता है कि गम्पत्ति बाबत् कोई व्यवहार नहीं करें और किये गए व्यवहार पर हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि के रूपये 17 29 285 /- (अक्षरे रूपये सत्रह लाख उनतीस हजार दो सौ पिच्यासी मात्र) दिनांक 30.09 2019 तक इसके पश्चात् के ब्याज व खर्च अतिरिक्त की राशि का भार होगा।

इराज नरवात् प्रकार वास कारावित्य जा तास कि ना है। आपका ध्यान उक्त अधिनियम 2002, की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार यदि बैंक ह किये सभी लागतों, व्यवहारों और खर्चों के साथ उसके बकायों को विक्रय सूचना के प्रकाषन की तिथि के पहले हो चुकाया जाता है तो प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त करा सकते हैं। सूचित हो विक्रय सूचना के प्रका**श**न के पश प्रतिभूत आस्ति को ऋण मुक्त कराने का अधिकार नहीं रहेगा। बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण :-ग्राम पोस्ट- पराना, तहसील एवं जिला- टोंक में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 61'x 20' वर्ग फिट जो कि श्री मदनर खटीक पत्र श्री भैरूलाल खटीक के नाम से है।

चतुर्थ सीमा :-पूर्व- रघुनाथ खटीक का मकान

दक्षिण- रामदेव खटीक की भ दिनांकः 11.02.2020

### बिटस लिमिटेड

लड़ाकु विमान

(CIN: L72200DL1992PLC241971) पंजीकृत कार्यालयः 711, 7वीं मंजिल, न्यू दिल्ली हाउस, 27 बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 ई-मेल : bitsltd@gmail.com वेबसाइट : http://www.bits.net.in टेली नं. 011-43656567

31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही व नौ माह के लिए अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2017 के विनियम 47(1) (बी) के अनुपालन में (राशि रु. लाख में)

स.		को समाप्त तिमाही (अनंकेक्षित)	को समाप्त नौ माह (अनंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	19.59	56.82
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर से पहले, असामान्य और/असाधारण मदें)	5.65	(0.32)
3	कर से पहले अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य और/असाधारण मदों के बाद)	5.65	(0.32)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असामान्य और/या असाधारण मदों के बाद)	5.65	(0.32)
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि (कर के बाद) के लिए लाभ / (हानि) सहित और अन्य समग्र आय (कर के बाद))	5.65	3.30
6	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 2/— प्रत्येक का अंकित मूल्य)	2237.50	2237.50
7	पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार आरक्षित (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	_	-
8	अर्जन प्रति शेयर (रु. 10 / — प्रत्येक के) (जारी व बंद प्रचालनों के लिए) (ईपीएस)		
	ए. बेसिक :	0.0051	0.0029
	बी. डायल्यूटिड :	0.0051	0.0029

ए) 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही व नौ माह के लिए उक्त समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की लेखा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13 फरवरी, 2020 को आयोजित 📕 1. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ माही के उपरोक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों की ऑडिट किमटी निदेशक मंडल की बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित हैं।

बी) पूर्व वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित, पुनर्वर्गीकृत और पुनतैयार किया

सी) कंपनी केवल एक खंड में प्रचालन करती है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार बिट्स लिमिटेड के लिए हस्ता. 🖊 ओम प्रकाश रमाशंकर पाठक स्थान : नई दिल्ली (प्रबंध निदेशक) डीआईएन: 01428320 |दिनांक : 13.02.2020

### पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(CIN:L72200DL1984PLC017510)

पंजी. कार्या.: 711, 7वॉ तल, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 43656567, ईमेल: srgltd@gmail.com, वेबसाईटः http://www.panindiacorp.com

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं नौ माही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

[ सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2017 के विनियमन 47(1) के अनुपालन में ] (राशि रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण		31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त नौ माही केक्षित)	
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	-	1	-
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(2.15)	4.83	(4.23)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2.15)	4.83	(4.23)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2.85)	3.72	(4.23)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	(2.85)	3.72	(4.23)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	21425.65	21425.65	21425.65
7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित)		-	3
8.	आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)			
	क. मूल	(0.0013)	0.0017	(0.0020)
	ख. तरल	(0.0013)	0.0017	(0.0020)

द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 फरवरी 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित

. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व वर्ष के आंकड़े पनर्कार्याविन्त, पनर्वर्गीकृत तथा पनर्व्यवस्थित किए गए हैं। 3. कम्पनी केवल एक ही खंड में प्रचालन करती है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर पैन इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

ओम प्रकाश रामाशंकर पाठक स्थान: नई दिल्ली प्रबंधक निदेशक तिथि: 13.2.2020 DIN:01428320

## SHYAM TELECOM LIMITED

CIN: L32202RJI992PLC017750

REGD.OFFICE: SHYAM HOUSE, 3, AMRAPALI CIRCLE, VAISHALI NAGAR, JAIPUR - 302021, RAJASTHAN, INDIA Website: www.shyamtelecom.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2019 (Rs. in Lakhs Except per Equity Share Capital data)

S. NO.	PARTICULARS	Quarter Ended	Nine Months Ended	Corresponding Quarter Ended	
(5.735-2.5		31/12/2019	31/12/2019	31/12/2018	31/03/2019
1.	Total Income	34.57	159.32	394.29	1,357.63
2.	Net Profit /(Loss) for the period before Tax and Exceptional Items	(134.81)	(476.44)	53.28	(226.36)
3.	Net Profit /(Loss) for the period before Tax and after Exceptional Items	(134.81)	(476.44)	53.28	(1,226.36)
4.	Net Profit /(Loss) for the period after Tax and Exceptional Items	(135.02)	(475.37)	56.50	(1,222.05)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after Tax)	(135.22)	(476.34)	57.20	(1,235.93)
	and other Comprehensive Income (after Tax)]				
6.	Equity Share Capital	1,127.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00
7.	Reserve (excluding Revaluation Reserves )	-	-	-	-
8.	Earning Per Share (EPS) of Face Value of Rs. 10/- each				
	(a) Basic	(1.20)	(4.23)	0.51	(10.97)
	(b) Diluted	(1.20)	(4.23)	0.51	(10.97)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months Unaudited Financial Results with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Nine Months Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.shyamtelecom.com)

For & on Behalf of Board of Directors of **SHYAM TELECOM LIMITED** 

Sd/-

Date: 13<sup>th</sup> February 2020 Place: NEW DELHI

SHYAM

**AJAY KHANNA MANAGING DIRECTOR** 



## S CHAND AND COMPANY LIMITED

Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi110044, India Email: investors@schandgroup.com; Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800 Fax: +91 11 49731801 CIN: L22219DL1970PLC005400

Extracts of the Consolidated and Standalone Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2019

S.	Particulars	Standalone				Consolidated					
No.		Quarter ended		Nine months ended		Year ended	Quarterly		Nine months ended		Year ended
		Dec 31, 19 Unaudited	Dec 31, 18 Unaudited		Dec 31, 18 Unaudited	1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	Dec 31, 19 Unaudited	Dec 31, 18 Unaudited	Dec 31, 19 Unaudited	Dec 31, 18	Mar 31, 19
										Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	61.86	65.25	441.54	471.99	2,176.60	102.88	78.34	1,015.34	802.83	5,336.43
2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	(314.44)	(273.64)	(740.57)	(765.65)	(276.32)	(1,015.62)	(966.82)	(2,275.54)	(2,443.33)	(719.13)
3	Profit/(loss) before tax	(314.44)	(499.21)	(740.57)	(991.22)	(501.89)	(1,015.62)	(1,193.09)	(2,275.54)	(2,727.73)	(952.52)
4	Profit/(loss) for the period/year (after tax)	(221.47)	(319.53)	(562.28)	(639.72)	(310.24)	(748.43)	(814.84)	(1,729.48)	(1,884.21)	(669.20)
5	Total comprehensive income for the period/year (comprising profit/(loss) and other comprehensive income for the period/year)	(220.67)	(321.63)	(562.95)	(639.92)	(310.93)	(746.81)	(821.10)	(1,728.63)	(1,881.40)	(644.58)
6	Equity Share capital	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88	174.88
7	Reserves and surplus (excluding Revaluation Reserves) of the previous year	N.A	N.A	N.A	N.A	8,053.30	NA	NA	NA	NA	9,729.02
8	Earnings/(loss) per share (in ₹)										
	- Basic	(6.33)	(9.14)	(16.08)	(18.29)	(8.87)	(21.40)	(23.26)	(49.45)	(53.45)	(19.13)
	- Diluted	(6.33)	(9.14)	(16.08)	(18.29)	(8.87)	(21.40)	(23.26)	(49.45)	(53.45)	(19.13)

The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the company's website www.schandgroup.com and on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and The National Stock Exchange of India Limited

The unaudited standalone and consolidated financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2019 were reviewed by the Audit Committee at its meeting held on February 12, 2020 and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2020.

> For and on behalf of the Board of Directors S Chand And Company Limited

Himanshu Gupta

एस्टेट एण्ड फाइनेस लिमिटेड सीआईएन : L91396UP1988PLC009275

31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

पंजीकृत कार्यालय : 16/71ए, सिविल लाइन्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश-208001 (राशि रु. में

31.03.2019 लेखापरीक्षित अद्यतन वर्ष के आंकडे अद्यतन वर्ष के 31.12.2019 माह 30.09.2019 3 माह 31.12.2018 अलेखापरीहि 31.12.2019 अलेखापरीवि आंकडे 31.12.201 (अ) प्रचालन से राजस्व 253,750.0 253,750.0 248,720.0 759,470.00 1,014,259.0 761250.0 (ब) अन्य आय प्रचालनों से कल आय (निबल 253,750. 248,720.0 761,250.0 759,470.0 1,014,259.0 (अ) उपभक्त सामग्रियों की लागत (ब) स्टॉक-इन-टेड की खरीद (स) तैयार माल, डब्ल्यूआईपी एवं स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंट्री में (द) कर्मचारी लाभ व्यय 61,540.0 61,530.0 61,495.0 184,650.0 184,595.0 246,600.00 (य) मल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय 315,333.0 (र) अन्य व्यय 81.015.0 132.534.0 74.730.0 365224.0 232,905.0 561,933.00 कल व्यय 142,555.00 194,064.0 136225.0 549,874.00 417,500.0 अन्य आय. वित्तीय लागत तथा अपवादित मद से पर्व प्रचालनों से 341,970.0 111,195.00 59.686.0 112495.0 211.376.00 452,326.00 लाभ/(हानि) (1-2) वित्तीय लागतों तथा अपवादित मदों से पर्व सामान्य गतिविधियों से 112,495.00 211,376.00 341,970.00 452,326.00 111,195.0 59,686.0 वित्तीय लागतों के पश्चात किन्तु अपवादित मदों से पूर्व सामान्य 112,465.50 111,161.9 211283.9 339,517.0 गतिविधियों से लाभ/(हानि) (5-6) अपवादित मनें कर पर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ/(हानि) (7-8) 111,161.9 112,465.5 211283.9 339,517.0 449,843.5 59,656. कर व्यय वर्तमान कर 118,000.0 मैट क्रेडिट एन्टाइटलमेंट आस्थगित कर देयताएं/( आस्तियाँ) कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निबल लाभ/(हानि) (9-10) 331,843,5 111,161.9 59,656.5 112,465.5 211283.96 339,517.0 असाधारण मदें (कर व्ययय का निबल) अवधि हेत निबल लाभ/(हानि) (11 -12) 111,161.9 112,465.5 339,517.0 331,843,5 59,656.5 211283.9 एसोसिएटस के लाभ/(हानि) का शेयर करों, माइनॉरिटी हित तथा एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के शेयर वे 112,465.5 211283.9 339,517.0 331,843.57 111,161.9 59,656.5 पश्चात निबल लाभ/(हानि) (13 +14 +15) \*

1,530,000.0

0.073

15,300,000.0

0.07

0.074

15,300,000.0

1,530,00

0.222 0.222

0.222 0.222

1,530,000.0

0.138

(अ) शेयस्थारिता का विवरण :							
ा सार्वजनिक शेयरधारिता		समाप्त 3 माह	समाप्त आगामी 3 माह	समाप्त वर्तमान वर्ष			
		30/12/2019 अलेखापरीक्षित	30/09/2019 अलेखापरीक्षित	31/03/2019 लेखापरीक्षित			
2. शेयरों की संख्या		429,840.00	429,840.00	429,840.00			
शेयरधारिता का प्रतिशत		28.09	28.09	28.09			
प्रमोटर एवं प्रमोटर समूह की शेयरधारिता							
(अ) गिरवीकृत/ऋणभारित							
शेयरों की संख्या		-	-	-			
शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर एवं प्रमोटर समूह की कुल शेयरधारिता के	के रूप में)	-	-	-			
शेयरों का प्रतिशत (कम्पनी की कुल शेयर पूँजी के % के रूप में)		-	-	-			
(ब) गैर-ऋणभारित							
शेयरों की संख्या		1,100,160.00	1,100,160.00	1,100,160.00			
शेयरों का प्रतिशत (प्रमोटर एवं प्रमोटर समूह की कुल शेयरधारिता के	के रूप में)	100.00	100.00	100.00			
शेयरों का प्रतिशत (कम्पनी की कुल शेयर पूँजी के % के रूप में)		71.91	71.91	71.91			
(ब) विवरण	समाप्त तिमाही 31-12-2019						
निवेशक शिकायत							
तिमाही के प्रारम्भ में लिम्बत		कोई नहीं					
तिमाही के दौरान प्राप्त		कोई नहीं					
तिमाही के दौरान निस्तारित	कोई नहीं						

1. जहाँ आवश्यक प्रतीत हुआ वहाँ गत अवधि के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है कृते मृदया एस्टेट एण्ड फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

अंकुर बंसल तिथि : 12.02.2020 कम्पनी सचिव बिक्री उद्घोषणा



प्रदत्त शेयर पूँजी

छोडकर आरक्षियाँ

(वार्षिकीकत नहीं)

(वार्षिकीकत नहीं)

(अ) बेसिक

(ब) डाइल्यटेड

(ब) डाइल्यूटेड

इक्विटी शेयरों की संख्या (प्रत्येक रु. 10/- के अंकित मूल्य)

गत लेखांकन वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मृल्यांकन आरक्षियों को

(ii) असाधारण मदों के पश्चात आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के)

(i) असाधारण महों से पूर्व आय पति शेयर (रु. 10/- पत्येक के)

तिथि: 31.1.2020 पीएनबी बनाम चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी- $\Pi$ , ऋण वसूली अधिकरण- $\Pi$ , दिल्ली

4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा सीडी नं. 1. चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-

साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052

साथ हीं: बी-8, गुजरावाला टाउन, पार्ट-1, मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन के निकट, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009 **सीडी नं**. 2. श्री हंस राज धनकर (गारन्टर), पुत्र स्व. श्री भीम सिंह (अध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी

ट्रस्ट, २४४-२४५, प्लॉट नं. २१, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052

**सीडी नं**. 3. सुश्री कमला चौधरी (गारन्टर) पत्नी श्री हंसराज धनकर (अध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेंक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052 **सीडी नं**. 4. श्री अवतार सिंह, पुत्र स्व. श्री भीम सिंह (उपाध्यक्ष एवं मैनेजिंग ट्रस्टी), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-

245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052 **सीडी नं**. *5*. श्री धरम सिंह, पुत्र श्री चांदगी राम (महासचिव), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-245, प्लॉट नं. 21.

वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 साथ हीं: आईएफसीआई अपार्टमेन्ट, फ्लैट नं. 4003, सेक्टर-23, द्वारका, दिल्ली-110075 **सीडी नं**. 6. श्री विवेक सिंह चौधरी (गारन्टर), पुत्र श्री हंस राज धनकर (संयुक्त सचिव), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052 **सीडी नं**. 7. सुश्री कृष्णा चौधरी,पत्नी श्री अवतार सिंह (कोषाध्यक्ष), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052

**सीडी नं. 8.** श्री विकास धनकर , पुत्र श्री हंस राज धनकर (सदस्य ट्रस्टी), चौ. भीम सिंह इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, 244-245, प्लॉट नं. 21, वर्धमान प्लाजा, के.पी. ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 साथ हीं: बी-37, अशोक विहार फेज-1, दिल्ली-110052

जैसा कि आप पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली द्वारा तैयार की गई ओ.ए.नं. 477/ 2016/ डीआरटी-III, दिल्ली में रिकवरी प्रमाण पत्र के संदर्भ में आपके द्वारा देय रु. 14.6.2016 से लागत, खर्चे तथा 11% प्रति वर्ष की साधारण दर से ब्याज के साथ रु. 15,98,75,204/– (रुपये पन्द्रह करोड अन्ठानवे लाख पचहत्तर हजार दो सौ चार मात्र) तथा सीडी से वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार देय ब्याज एवं लागत का भगतान करने में विफल

तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे तालिका में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 21.3.2020 को 3.00 बजे अप. से 4 बजे के बीच (यदि जरूरी हो, समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में स्वतः विस्तार उपबंध के साथ) ई-नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से मै. ई-प्राक्योमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (एबीसी प्रॉक्योर), ए-201/208, वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) टेली.: +91 07940016800, फैक्स: +91-7940016876 द्वारा वेबसाईट 

किसी भी प्रकार की पछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये इच्छक बोलीदाता डीआरटी-III. दिल्ली के रिकवरी सेल में सम्पर्क करें। यह बिक्री नीचे तालिका में नामित उपरोक्त प्रतिवादियों की संपत्ति की होगी तथा उक्त संपत्ति से जुड़ी देयताएं एवं दावे, जो अब तक सुनिश्चित हैं, वे प्रत्येक लॉट के समक्ष अनसची में निर्दिष्ट हैं। संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री पर रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि संपत्ति के भाग की बिक्री से पूरी हो जाती है तो शष के

मामले में तरंत बिक्री रोक दी जाएगी। यदि बिक्री संचालक अधिकारी के पास अनसची में वर्णित बकाए: ब्याज लागत (बिक्री लागत सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो किसी भी लॉट की नीलामी से पूर्व बिक्री तत्काल रोक दी जाएगी। ऐसे किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति बिक्री के सिलसिले में कोई कर्त्तव्य निर्वहन का दायित्व हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बेची जा रही संपत्ति

को अर्जित करने के लिए बोली लगाने या कोई हित अर्जित करने के लिए प्रयास करने में अक्षम होंगे। यह बिक्री आयकर अधिनयम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। संलग्ने अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत की गई है, लेकिन इस उद्घोषणा में किसी गलती, त्रृटि अथवा

खामी के लिए अधोहस्ताक्षरी उत्तरदायी नहीं होंगे। आरक्षित मल्य जिससे क्रय में सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी का विवरण इस प्रकार है:

वां शेयर है, खेवत नं. 2, काहत नं. 2, ग्राम चान्दपुरी (फतेहपुरी) जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित भूमि तथा भवन (निर्मित या निर्मित रु. 19955000/-होने वाली) जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम में है, का ई एम; अर्जित/अर्जित की जाने वाली सभी प्लान्ट एवं मशीनरी, उपकरण फर्नीचर नथा फिक्नर्स तथा अन्य निर्धारित परिसम्पत्तियों सहित सम्पूर्ण चल ब्लॉक परिसम्पत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य में) का हाइपोथेकेशन।

1. खसरा नं. 13/24 (7-8), 25 (8-0) 14/21 (8-0), 22 (8-0), 18/4 (7-8) 5 (8-0), 6 (8-0), 7 (7-8), 14 (7

9), 15 (8-0), 78 कनाल 3 मरला, माप 10 एकड़ भूमि का एक भाग जो 192 कनाल 16 मरला (80 कनाल) का 1600/3856

2. वह राशि जिसके द्वारा बोली बढ़ाई जाएगी रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) है। यदि बोली राशि अथवा बोलीदाता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लॉट को फिर से बिक्री पर लगाया जाएगा।

3. उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा। यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त होता है तथा ऐसा करना व्यवहारिक नहीं होता है तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकते हैं। 4. ईएमडी का भुगतान 19.3.2020 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/ पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी-II,

डीआरटी-III दिल्ली के पास किया जायेगा। उसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 5. बोली आवेदन के साथ पैन कार्ड की प्रति, निवास के प्रमाण तथा पहचान के प्रमाण, ई–मेल आईडी, मोबाईल नं. तथा यदि वे अपनी ओर से या अपने प्रधान की ओर से बोली कर रहे हों तो उदघोषणा जमा किया जायेगा। बाद में मामले में उन्हें उसका प्राधिकार जमा करना होगा अन्यथा बोली निरस्त

कर दी जायेगी तथा कंपनी के मामले में कंपनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कंपनी की प्रतिनिधित्व/ अटार्नी की पष्टि करने वाले अन्य कोई दस्तावेज तथा उस जमा की रसीद/ काउंटर फाइल सेवा प्रदाता अथवा सीएच बैंक के पास ई-मेल या अन्य रूप से उक्त तिथि तक पहंच जाए तथा उसकी हार्ड कॉपी. रिकवरी अधिकारी II. डीआरटी-III. दिल्ली के पास जमा की जायेगी। 5. सफल बोलीदाता को अगले बैंक कार्य दिवस के 3.00 बजे अप. तक ऊपर वर्णित विवरणों के अनसार उक्त खाता में ईएमडी समायोजित करने के

बाद अपनी अंतिम बोली राशि के 25% का भगतान करना होगा। 7. क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पर्व तथा यदि 15वां दिन अवकाश या रविवार होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक

कार्य दिवस में ऊपर पैरा 3 में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया में अंतिम बोली राशि के शेष 75% का भुगतान करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को रु. 1000/- तक 2% की दर से तथा रु. 1000/- की उक्त राशि के अधिक पर 1% की दर से रजिस्टार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिल्ली के पास पाउंडेज शल्क का भी भगतान करना होगा।

8. असफल बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सनवाई की निर्धारित तिथि या उससे पर्व डीआरटी-III के रजिस्ट्री में पहचान के प्रमाण के साथ आवेदन दाखिल करें जो तदनुसार आरसी की सुनवाई की निर्धारित/परवर्ती तिथि को वापस लौटाई

9. निर्धारित अवधि के भीतर भगतान में चक करने पर बिक्री की नई उदघोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले

क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी के प्रति अपने सभी दावे से वंचित हो जाएंगे। 10. सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि यहां दिये गये विवरणों की प्रमाणिकता की जांच करें।

11. संपत्ति की बिक्री **'जैसा है जहां है तथा जो भी वहां है'** आधार पर की जा रही है। लॉट

THE STATE STATE COLOR OF SHARE COLOR OF SHARE COLOR								
सह-स्वामियों जहा जहां सम्पत्ति डिफॉल्टर तथा सह-स्वामी के रूप में किसी अन्य	संपत्ति या उसके	ऐसा किसी	दावे, यदि कोई हो, जिसे					
व्यक्ति का है, के नाम के साथ बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	किसी भाग पर	अधिभारों का	संपत्ति पर रखा गया हो					
	गणना की गई	विवरण, जो	तथा उस प्रकृति एवं मूल्य					
	राजस्व		के अन्य कोई ज्ञात विवरण					
2	3	4	5					
1. खसरा नं. 13/24 (7-8), 25 (8-0) 14/21 (8-0), 22 (8-0), 18/4 (7-8) 5 (8-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं					
0), 6 (8-0), 7 (7-8), 14 (7-9), 15 (8-0), 78 कनाल 3 मरला, माप 10 एकड़								
भूमि का एक भाग जो 192 कनाल 16 मरला (80 कनाल) का 1600/3856 वां शेयर है, खेवत								
नं. 2, काहत नं. 2, ग्राम चान्दपुरी (फतेहपुरी) जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित भूमि तथा भवन								
(निर्मित या निर्मित होने वाली) जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम में है, का ई एम; अर्जित/अर्जित की								
जाने वाली सभी प्लान्ट एवं मशीनरी, उपकरण फर्नीचर तथा फिक्कर्स तथा अन्य निर्धारित								

(विकास जैटली मेरे हाथ से तथा महर लगाकर 31 जनवरी, 2020 को दी गई।

रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-III, दिर्ल्ल

आरक्षित मूल्य/ईएमडी

रु. 19,95,50,000/−

ईएमडी

Date: February 13, 2020 Place: New Delhi

www.readwhere.com

Managing Director DIN: 00054015

(₹. in millions)

नं.

परिसम्पत्तियों सहित सम्पूर्ण चल ब्लॉक परिसम्पत्तियों (वर्तमान एवं भविष्य में) का